



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1124) पटना, वृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2015

सं0 22 नि0 सि0 (दर0)—16-1022/96/1796—श्री जीवकान्त झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, झंझारपुर से उक्त प्रमण्डल के पदस्थान अवधि में झंझारपुर शाखा नहर के मानक वि0 दू0 102-165 पर बन रहे एक मार्गीय सेतु के कार्यों में मापपुस्त सं0-453 में तकनीकी परीक्षक कोषांग मंत्रीमंडल निगरानी विभाग के आदेश का अनुपालन नहीं कर व्यवहार में लाने तथा अनियमित रूप से जमानत राशि लौटाने संबंधी अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक 2312 दिनांक 21.10.95 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था। श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं मामले की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त उपरोक्त आरोपों के लिए श्री झा को दोषी पाया गया। फलस्वरूप श्री झा के विरुद्ध विभागीय आदेश सं0-275 दिनांक 13.09.96 सह पठित ज्ञापांक 2032 दिनांक 13.09.96 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया:—

(i) निन्दन जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्र्य वर्ष 1987-88 में की जायेगी।

(ii) श्री झा की सेवाएं अंतोषजनक मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139'ए' 'बी0' के तहत पेंशन कम निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है जिस संबंध में कार्रवाई अलग से की जाएगी।

विभागीय आदेश सं0-869 दिनांक 25.04.96 द्वारा श्री झा के विरुद्ध पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, झंझारपुर में हुई कतिपय अनियमितताओं के लिए निम्न दण्ड संसूचित किया गया:—

(i) निन्दन वर्ष 1990-91

(ii) तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक

(iii) 10,000/— (दस हजार) रुपये की वसूली।

उक्त दण्ड के विरुद्ध सी० डब्लू० जे० सी० सं०—5538/99 जीवकान्त झा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.04.15 को पारित न्यायादेश के आलोक में मामले की समीक्षा की गई तदुपरान्त श्री जीवकान्त झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, झंझारपुर के विरुद्ध निर्गत दण्डादेश सं०—869 दिनांक 25.04.96 एवं दण्डादेश सं०—275 दिनांक 13.09.96 को निरस्त किया जाता है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री जीवकान्त झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

गजानन मिश्र,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1124-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>